



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2571]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 2014/अग्रहायण 27, 1936

No.2571]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2014/AGRAHAYANA 27, 1936

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3207(अ). केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद जिले में **विशेष रेल परियोजना, अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन** के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपयुक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अपर मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन), (संयुक्त संगठन) गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसमें सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विषेय रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला—गाजियाबाद, तहसील—मोदीनगर, परगना—जलालाबाद, राज्य—उत्तर प्रदेश

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	अर्जन के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे० मे०)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	(1) नंगौला अमीपुर	7	0.1274
		8	0.1435
		28	0.0137
		27	0.0368
		26	0.0080
		25	0.0100
		24	0.0390
		23	0.0390
		22	0.0390
		21	0.0390
		20	0.1124
		19	0.1149
		18	0.1169
		17	0.0119
		16	0.0107
		12	0.3099
		11	0.0102
		10	0.1334
		9	0.1394
		6	0.1549
	(2) किल्होड़ा	1376	0.0232
		1375	0.0147
		1378	0.5059
		1374	0.3090
		1381	0.0100
		1383	0.0498
		1382	0.1560
		1360	0.1836
		1387	0.0100
		1388	0.0070
		1395	0.1800
		1396	0.1970
		1397	0.0100
		1394	0.0270

		1393	0.0270
		1352	0.0262
		1341	0.1000
		1342	0.1120
		1343	0.9728
		1340	0.5760
		1339	0.0397
		1338	0.0462
		1336	0.0100
		1335	0.0419
		1334	0.0946
		1333	0.1198
		1214	0.0241
		1215	0.0244
		1196	1.1547
		1195	0.5180
		1194	0.0133
		1164	0.0221
		1126	0.0551
		1125	0.0590
		1124	0.1860
		1122	0.0280
		1123	0.0310
		1127	0.0280
		1128	0.0110
		1129	0.0680
		1130	0.0680
		1131	0.0680
		1132	0.0680
		1133	0.0680
		1134	0.2782
		1114	0.0098
		1113	0.0200
		1102	0.0373
		1103	0.2215
		1104	0.0150
		1105	0.7340
		1106	0.2149
		1076	0.0362

		1075	0.0070
		1016	0.4640
		1015	0.2340
		1012	0.1156
		1011	0.0824
		1010	0.0070
		994	0.0421
		995	0.0300
		996	0.0020
		997	0.0300
		998	0.0132
		1009	0.0377
		1008	0.0392
		1007	0.0482
		1006	0.0100
		1005	0.0060
		1004	0.1093
		1000	0.3931
		1003	0.0798
		1002	0.1792
		1001	0.1630
		1001 / 1427	0.0360
		983	0.0100
		976	0.0087
		975	0.0175
		973	0.1860
		974	0.0510
		972	0.0120
		971	0.1194
		967	0.0822
		968	0.3287
		964	0.3502
		962	0.1737
		959	0.0050
		958	0.3408
		956	0.0235
		955	0.0180
		952	0.0164
		951	0.0558
		950	0.0711

		949	0.3695
		948	0.3321
		946	0.0050
		945	0.1453
		944	0.2716
		941	0.0786
		943	0.0184
		942	0.1600
		940	0.0842
		939	0.0250
		938	0.0100
		937	0.1326
		936	0.0014
		827	0.0151
		826	0.0200
		822	0.0956
		823	0.0050
		818	0.1595
		817	0.1350
		816	0.1141
		815	0.1064
		814	0.1327
		813	0.1531
		812	0.0180
		811	0.0080
		807	0.3117
		806	0.5710
		802	0.0721
		803	0.0245
		804	0.1770
		800	0.0042
		799	0.0015
		787	0.0146
		786	0.0149
		739	0.3184
		641	0.0124
		642	0.0141
		643	0.1250
		644	0.0040

		645	0.1800
		646	0.0857
		647	0.0987
		648	0.0480
		649	0.0230
		659	0.0116
		660	0.0170
		733	0.4411
		734	0.1291
		736	0.0080
		737	0.3658
	(3) यूसुफपुर ईसापुर	178	0.2312
		179	0.4698
		177	0.3548
		180	0.1234
		176	0.9050
		181	0.0350
		175	0.3505
		174	0.4551
		173	0.5652
		169	0.0100
		149	0.0250
		148	0.0350
		150	1.1950
		146	0.0207
		147	0.0266
		108	0.8709
		107	0.0650
		106	0.0150
		68	0.4203
		67	0.1109
		65	0.0390
		62	0.0160
		63	0.0130
		64	0.0160
		61	0.3200
		60	0.0200
		59	0.0530
		60 / 515	0.0020
		57	0.0212

		56	0.0320
		54	0.0060
		49	0.0212
		48	0.0050
		44	0.0050
		45	0.0080
	(4) भदौला	441	0.3075
		440	0.6937
		439	0.3750
		401	0.2275
		395	0.1060
		394	0.1060
		393	0.0116
		392	0.0076
		391	0.0788
		390	0.1509
		388	0.0300
		385	0.1582
		386	0.0050
		384	0.0322
		358	0.1366
		357	0.0103
		355	0.0837
		354	0.2568
		352	0.0482
		348	0.0537
		349	0.0250
		350	0.0250
		351	0.0160
		334	0.0103
		335	0.0100
		336	0.0100
		333	0.3077
		332	0.0760
		331	0.4050
		327	0.0100
		330	0.1697
		329	0.1980
		328	0.1047

		316	0.0266
		315	0.0148
		326	0.2334
		314	0.7389
		313	0.3133
		312	0.0237
		304	0.0083
		306	0.0949
		305	0.0125
		303	0.9242
	(5) औरंगाबाद अफजलगढ़	306	0.0381
		305	0.0100
		307	0.6192
		317	0.8923
		322	0.0100
		319	0.0384
		318	0.0664
		321	0.4856
		320	0.1640
		329	0.0353
		330	0.2379
		333	0.3619
		354	0.9001
		355	0.0444
		362	0.3554
		363	0.0130
		361	0.6858
		358	0.2287
		357	0.0100
		388	3.0456
		367 / 744	0.1100
		370	0.0339
		371	0.0136
		369	1.1982
		447	0.0108
		368	0.0733
		442	0.2691
		40	0.0742
		42	0.0121
		39	0.8700

		38	0.4706
		37	0.1600
		29	0.0557
		28	0.1514
		30	0.0100
		31	0.0284
		33	0.6465
		34	0.0230
		35	0.1295
		36	0.0050
	(6) पलौता	408	0.4637
		407	0.1124
		406	0.1370
		405	0.1370
		404	0.1181
		403	0.0488
		384	0.0230
		383	0.0225
		382	0.2163
		380	0.0100
		379	0.0130
		381	0.0100
		385	0.0100
		386	0.0070
		378	0.2610
		377	0.2591
		392	0.0474
		376	0.3281
		375	0.0820
		374	0.0100
		369	0.0165
		329	0.0208
		331	0.0100
		330	0.3896
		323	0.0440
		324	0.0060
		325	0.4190
		327	0.1841
		321	0.2937

		322	0.0100
		312	0.0244
		326	0.1767
		301	0.1955
		302	0.0650
		304 / 410	0.0060
		303	0.0650
		304	0.1354
		311	0.0340
		305	0.3450
		306	0.1680
		298	0.0143
		299	0.0100
		297	0.0626
		309	0.0108
		308	0.0890
		307	0.0880
		287	0.0120
		286	0.0060
		285	0.0647
		284	0.0331
		283	0.0304
		282	0.0176
		281	0.0100
		280	0.0050
		275	0.0200
		276	0.0260
		251	0.1790
		249	0.1442
		252	0.1790
		253	0.0479
		254	0.0287
		255	0.0050
		257	0.0080
		250	0.0210
	(7) भटजन	1054	0.3801
		1053	0.2888
		1051	0.0200
		1041	0.0250
		1042	0.2270

		1043	0.0871
		1044	0.0510
		1036	0.0370
		1037	0.0420
		1038	0.0430
		1039	0.0590
		1040	0.0350
		1035	0.0400
		1036 / 1265	0.0080
		1045	0.0100
		1047	0.0050
		1034	0.0600
		1033	0.0430
		1028	0.0200
		1030	0.0090
		1031	0.0431
		1027	0.1200
		1026	0.0840
		1025	0.1612
		1029	0.1880
		1024	0.1860
		850	0.0580
		849	0.1376
		848	0.1114
		1023	0.0060
		1022	0.0110
		1007	0.0080
		1006	0.0125
		1008	0.1390
		1011	0.0080
		1012	0.0200
		1021	0.1949
		815	0.0157
		747	0.0080
		746	0.0125
		745	0.0888
		743	0.3118
		744	0.0250
		841	0.0471

		736	0.2652
		735	0.4081
		734	0.5413
		710	0.0300
		709	0.0120
		708	1.2636
		711	0.0320
		707	0.8996
		706	0.0250
		705	0.0090
		704	0.1968
		643	0.0700
		642	0.0286
		602	0.0150
		604	0.0070
		605	0.6449
		606	0.0130
		607	0.0100
		607 / 1258	0.0050
		608	0.3609
		609	0.0080
		610	0.0040
		612	0.0167
		597	0.6940
		613	0.2150
		593	0.0250
		616	0.0400
		617	0.5820
		620	0.0342
		631	0.2480
		632	0.0100
		629	0.0250
		630	0.0110
		622	0.2240
		623	0.0670
		624	0.1170
		625	0.0050
		628	0.1962
		621	0.0745
		626	0.0770

		627	0.2820
		589	0.0110
		588	0.0240
		571	0.0220
		570	0.2609
		569	0.0681
		568	0.0350
		567	0.0200
		528	0.0120
		527	0.1013
		526	0.3883
		525	0.6958
		524	0.0112
		523	0.0200
		522	0.1445
		474	0.0320
		640	0.3340
		641	0.3160
		636	0.1470
	(8) मुरादाबाद	672	0.0100
		667	0.0150
		666	0.0118
		665	0.1584
		664	0.0950
		663	0.0930
		662	0.0869
		661	0.0100
		659	0.0070
		658	0.0060
		657	0.9285
		656	0.0300
		655	0.0100
		652	0.2344
		651	0.0596
		650	0.0100
		639	0.0250
		638	0.0300
		631	0.1015
		630	0.3998

		629	0.2270
		627	0.0060
		628	0.0100
		625	0.0976
		624	0.2628
		623	0.3920
		622	0.1649
		621	0.0321
		620	0.0200
		619	0.0150
		617	0.0450
		616	0.0250
		618	0.1370
		613	0.0050
		612	0.0420
		611	0.0470
		610	0.1700
		609	0.0050
		608	0.0152
		607	0.0070
		606	0.0051
		605	0.1200
		604	0.1680
		603	0.0300
		602	0.1140
		598	0.0050
		597	0.0060
		596	0.0121
	(९) शकूरपुर	6	0.0050
		7	0.0076
		8	0.1264
		9	0.4110
		10	0.5634
		11	0.0050
		12	0.1199
		13	0.0909
		14	0.0796
		15	0.0941
		27	0.0211
		28	0.0196

		38	0.0050
		39	0.0237
		40	0.0061
		16	0.0078
		17	0.0070
		25	0.0050
		26	0.0580
		24	0.0165
		41	0.2855
		42	0.1759
		43	0.0780
		44	0.0236
		45	0.2127
		46	0.0050
		82	0.0728
		84	0.8818
		85	0.0193
		90	0.4829
		95	0.0171
		100	0.6504
		101	0.0273
		102	0.0151
		111	0.5352
		112	0.0186
		113	0.0332
		114	0.2180
		120	0.0050
		115	0.0152
		121	0.0538
		123	0.0219
		124	0.0156
		129	0.0125
		128	0.0050
		130	0.0050
		131	0.0502
		132	0.0986
		133	0.1397
		134	0.2284
		135	0.1150

		138	0.0664
		139	0.3762
		144	0.0070
		140	0.0050
		141	0.0080
		142	0.0080
		143	0.1506
		150	0.0127
		151	0.0167
		149	0.0488
		152	0.0350
		154	0.0945
		155	0.0170
		156	0.0080
		157	0.0080
		158	0.0060
		159	0.0060
		160	0.0060
		161	0.2545
		165	0.0550
		162	0.0667
		172	0.0726
		173	0.1908
		166	0.0080
		174	0.2046
		175	0.1402
		176	0.0500
		178	0.0920
		177	0.0080
		179	0.0578
		181	0.0127
		183	0.0307
		180	0.0020
		182	0.0050
		239	0.0963
		241	0.0729
		245	0.0250
		246	0.0066
		247	0.0560
		248	0.0378

	(10) सैदपुर हुसैनपुर डीलना	249	0.0057
		250	0.0601
		251	0.0100
		849	0.0513
		838	0.6936
		837	0.1262
		836	0.1257
		835	0.9155
		834	0.0295
		833	0.0318
		832	0.1140
		831	0.2809
		830	0.4939
		752	0.0296
		753	0.0274
		774	0.0962
		773	0.5771
		771	0.7489
		772	0.0050
		769	0.2508
		770	0.1020
		765	0.0050
		681	0.0050
		682	0.7270
		683	1.3306
		689	0.0594
		704	0.0166
		706	0.0010
		705	0.0010
		703	0.2580
		710	0.1020
		711	0.0050
		702	0.0174
		701	0.0173
		690	0.3893
		691	0.4093
		692	0.2287
		693	0.3981
		694	0.1137

		659	0.0496
		387	0.0563
		386	0.7578
		385	0.2120
		382	0.0208
		400	0.0249
		379	0.5203
		401	0.0302
		404	0.7151
		350	0.0174
		345	0.1866
		346	0.1379
		347	0.2772
		344	0.0081
		327	0.0429
		332	0.0429
		325	0.6905
		324	0.0050
		323	0.0050
		322	0.0334
		321	0.2815
		318	0.1085
		414	0.0050
		409	0.0022
		410	0.0016
		320	0.0100
		316	0.3928
		317	0.0911
		315	0.2457
		314	0.2749
		312	0.3186
		311	0.0105
		310	0.2053
		309	0.2685
		308	0.0241
		272	0.1888
		260	0.0897
		261	0.1195
		262	0.0919
		263	0.2863

		270	0.5714
		268	0.0050
		269	0.0984
		271	0.4254
		221	0.3946

[फा. सं. 2013/एल.एम.एल./12/7/ईस्टर्न कॉरीडोर/557]

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAY
(Railway Board)
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2014

S.O. 3207(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (Hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the Schedule annexed hereto, is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Projects, Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Gaziabad in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within Thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Additional Divisional Magistrate (Land Acquisition), Joint Organization, Gaziabad, Uttar Pradesh in Writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available, and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor District Gaziabad in the State of U.P.,

Name of District- Gaziabad, **Tehsil-** Modi Nagar, **Pargana-** Jalalabad

Sr. No.	Name of the Village	Plot No.	Area Propose for land Acquisition (in hect.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	(1) Nagola Amipur	7	0.1274
		8	0.1435
		28	0.0137
		27	0.0368
		26	0.0080
		25	0.0100
		24	0.0390
		23	0.0390
		22	0.0390
		21	0.0390
		20	0.1124

		19	0.1149
		18	0.1169
		17	0.0119
		16	0.0107
		12	0.3099
		11	0.0102
		10	0.1334
		9	0.1394
		6	0.1549
	(2) Kilhoda	1376	0.0232
		1375	0.0147
		1378	0.5059
		1374	0.3090
		1381	0.0100
		1383	0.0498
		1382	0.1560
		1360	0.1836
		1387	0.0100
		1388	0.0070
		1395	0.1800
		1396	0.1970
		1397	0.0100
		1394	0.0270
		1393	0.0270
		1352	0.0262
		1341	0.1000
		1342	0.1120
		1343	0.9728
		1340	0.5760
		1339	0.0397
		1338	0.0462
		1336	0.0100
		1335	0.0419
		1334	0.0946
		1333	0.1198
		1214	0.0241
		1215	0.0244
		1196	1.1547
		1195	0.5180
		1194	0.0133
		1164	0.0221
		1126	0.0551
		1125	0.0590
		1124	0.1860
		1122	0.0280
		1123	0.0310
		1127	0.0280
		1128	0.0110
		1129	0.0680

		1130	0.0680
		1131	0.0680
		1132	0.0680
		1133	0.0680
		1134	0.2782
		1114	0.0098
		1113	0.0200
		1102	0.0373
		1103	0.2215
		1104	0.0150
		1105	0.7340
		1106	0.2149
		1076	0.0362
		1075	0.0070
		1016	0.4640
		1015	0.2340
		1012	0.1156
		1011	0.0824
		1010	0.0070
		994	0.0421
		995	0.0300
		996	0.0020
		997	0.0300
		998	0.0132
		1009	0.0377
		1008	0.0392
		1007	0.0482
		1006	0.0100
		1005	0.0060
		1004	0.1093
		1000	0.3931
		1003	0.0798
		1002	0.1792
		1001	0.1630
		1001/1427	0.0360
		983	0.0100
		976	0.0087
		975	0.0175
		973	0.1860
		974	0.0510
		972	0.0120
		971	0.1194
		967	0.0822
		968	0.3287
		964	0.3502
		962	0.1737
		959	0.0050
		958	0.3408

	956	0.0235
	955	0.0180
	952	0.0164
	951	0.0558
	950	0.0711
	949	0.3695
	948	0.3321
	946	0.0050
	945	0.1453
	944	0.2716
	941	0.0786
	943	0.0184
	942	0.1600
	940	0.0842
	939	0.0250
	938	0.0100
	937	0.1326
	936	0.0014
	827	0.0151
	826	0.0200
	822	0.0956
	823	0.0050
	818	0.1595
	817	0.1350
	816	0.1141
	815	0.1064
	814	0.1327
	813	0.1531
	812	0.0180
	811	0.0080
	807	0.3117
	806	0.5710
	802	0.0721
	803	0.0245
	804	0.1770
	800	0.0042
	799	0.0015
	787	0.0146
	786	0.0149
	739	0.3184
	641	0.0124
	642	0.0141
	643	0.1250
	644	0.0040
	645	0.1800
	646	0.0857
	647	0.0987
	648	0.0480
	649	0.0230

		659	0.0116
		660	0.0170
		733	0.4411
		734	0.1291
		736	0.0080
		737	0.3658
	(3) Yusufpur Isapur	178	0.2312
		179	0.4698
		177	0.3548
		180	0.1234
		176	0.9050
		181	0.0350
		175	0.3505
		174	0.4551
		173	0.5652
		169	0.0100
		149	0.0250
		148	0.0350
		150	1.1950
		146	0.0207
		147	0.0266
		108	0.8709
		107	0.0650
		106	0.0150
		68	0.4203
		67	0.1109
		65	0.0390
		62	0.0160
		63	0.0130
		64	0.0160
		61	0.3200
		60	0.0200
		59	0.0530
		60/515	0.0020
		57	0.0212
		56	0.0320
		54	0.0060
		49	0.0212
		48	0.0050
		44	0.0050
		45	0.0080
	(4) Bhadaula	441	0.3075
		440	0.6937
		439	0.3750
		401	0.2275
		395	0.1060
		394	0.1060
		393	0.0116

		392	0.0076
		391	0.0788
		390	0.1509
		388	0.0300
		385	0.1582
		386	0.0050
		384	0.0322
		358	0.1366
		357	0.0103
		355	0.0837
		354	0.2568
		352	0.0482
		348	0.0537
		349	0.0250
		350	0.0250
		351	0.0160
		334	0.0103
		335	0.0100
		336	0.0100
		333	0.3077
		332	0.0760
		331	0.4050
		327	0.0100
		330	0.1697
		329	0.1980
		328	0.1047
		316	0.0266
		315	0.0148
		326	0.2334
		314	0.7389
		313	0.3133
		312	0.0237
		304	0.0083
		306	0.0949
		305	0.0125
		303	0.9242
	(5) Aurangabad Fazalgarh	306	0.0381
		305	0.0100
		307	0.6192
		317	0.8923
		322	0.0100
		319	0.0384
		318	0.0664
		321	0.4856
		320	0.1640
		329	0.0353
		330	0.2379
		333	0.3619
		354	0.9001

		355	0.0444
		362	0.3554
		363	0.0130
		361	0.6858
		358	0.2287
		357	0.0100
		388	3.0456
		367/744	0.1100
		370	0.0339
		371	0.0136
		369	1.1982
		447	0.0108
		368	0.0733
		442	0.2691
		40	0.0742
		42	0.0121
		39	0.8700
		38	0.4706
		37	0.1600
		29	0.0557
		28	0.1514
		30	0.0100
		31	0.0284
		33	0.6465
		34	0.0230
		35	0.1295
		36	0.0050
	(6) Palauta	408	0.4637
		407	0.1124
		406	0.1370
		405	0.1370
		404	0.1181
		403	0.0488
		384	0.0230
		383	0.0225
		382	0.2163
		380	0.0100
		379	0.0130
		381	0.0100
		385	0.0100
		386	0.0070
		378	0.2610
		377	0.2591
		392	0.0474
		376	0.3281
		375	0.0820
		374	0.0100
		369	0.0165

		329	0.0208
		331	0.0100
		330	0.3896
		323	0.0440
		324	0.0060
		325	0.4190
		327	0.1841
		321	0.2937
		322	0.0100
		312	0.0244
		326	0.1767
		301	0.1955
		302	0.0650
		304/410	0.0060
		303	0.0650
		304	0.1354
		311	0.0340
		305	0.3450
		306	0.1680
		298	0.0143
		299	0.0100
		297	0.0626
		309	0.0108
		308	0.0890
		307	0.0880
		287	0.0120
		286	0.0060
		285	0.0647
		284	0.0331
		283	0.0304
		282	0.0176
		281	0.0100
		280	0.0050
		275	0.0200
		276	0.0260
		251	0.1790
		249	0.1442
		252	0.1790
		253	0.0479
		254	0.0287
		255	0.0050
		257	0.0080
		250	0.0210
	(7) Bhatjan	1054	0.3801
		1053	0.2888
		1051	0.0200
		1041	0.0250
		1042	0.2270
		1043	0.0871

		1044	0.0510
		1036	0.0370
		1037	0.0420
		1038	0.0430
		1039	0.0590
		1040	0.0350
		1035	0.0400
		1036/1265	0.0080
		1045	0.0100
		1047	0.0050
		1034	0.0600
		1033	0.0430
		1028	0.0200
		1030	0.0090
		1031	0.0431
		1027	0.1200
		1026	0.0840
		1025	0.1612
		1029	0.1880
		1024	0.1860
		850	0.0580
		849	0.1376
		848	0.1114
		1023	0.0060
		1022	0.0110
		1007	0.0080
		1006	0.0125
		1008	0.1390
		1011	0.0080
		1012	0.0200
		1021	0.1949
		815	0.0157
		747	0.0080
		746	0.0125
		745	0.0888
		743	0.3118
		744	0.0250
		841	0.0471
		736	0.2652
		735	0.4081
		734	0.5413
		710	0.0300
		709	0.0120
		708	1.2636
		711	0.0320
		707	0.8996
		706	0.0250
		705	0.0090

	704	0.1968
	643	0.0700
	642	0.0286
	602	0.0150
	604	0.0070
	605	0.6449
	606	0.0130
	607	0.0100
	607/1258	0.0050
	608	0.3609
	609	0.0080
	610	0.0040
	612	0.0167
	597	0.6940
	613	0.2150
	593	0.0250
	616	0.0400
	617	0.5820
	620	0.0342
	631	0.2480
	632	0.0100
	629	0.0250
	630	0.0110
	622	0.2240
	623	0.0670
	624	0.1170
	625	0.0050
	628	0.1962
	621	0.0745
	626	0.0770
	627	0.2820
	589	0.0110
	588	0.0240
	571	0.0220
	570	0.2609
	569	0.0681
	568	0.0350
	567	0.0200
	528	0.0120
	527	0.1013
	526	0.3883
	525	0.6958
	524	0.0112
	523	0.0200
	522	0.1445
	474	0.0320
	640	0.3340
	641	0.3160
	636	0.1470

(8) Muradabad	672	0.0100
	667	0.0150
	666	0.0118
	665	0.1584
	664	0.0950
	663	0.0930
	662	0.0869
	661	0.0100
	659	0.0070
	658	0.0060
	657	0.9285
	656	0.0300
	655	0.0100
	652	0.2344
	651	0.0596
	650	0.0100
	639	0.0250
	638	0.0300
	631	0.1015
	630	0.3998
	629	0.2270
	627	0.0060
	628	0.0100
	625	0.0976
	624	0.2628
	623	0.3920
	622	0.1649
	621	0.0321
	620	0.0200
	619	0.0150
	617	0.0450
	616	0.0250
	618	0.1370
	613	0.0050
	612	0.0420
	611	0.0470
	610	0.1700
	609	0.0050
	608	0.0152
	607	0.0070
	606	0.0051
	605	0.1200
	604	0.1680
	603	0.0300
	602	0.1140
	598	0.0050
	597	0.0060
	596	0.0121

(9) Shakurpur	6	0.0050
	7	0.0076
	8	0.1264
	9	0.4110
	10	0.5634
	11	0.0050
	12	0.1199
	13	0.0909
	14	0.0796
	15	0.0941
	27	0.0211
	28	0.0196
	38	0.0050
	39	0.0237
	40	0.0061
	16	0.0078
	17	0.0070
	25	0.0050
	26	0.0580
	24	0.0165
	41	0.2855
	42	0.1759
	43	0.0780
	44	0.0236
	45	0.2127
	46	0.0050
	82	0.0728
	84	0.8818
	85	0.0193
	90	0.4829
	95	0.0171
	100	0.6504
	101	0.0273
	102	0.0151
	111	0.5352
	112	0.0186
	113	0.0332
	114	0.2180
	120	0.0050
	115	0.0152
	121	0.0538
	123	0.0219
	124	0.0156
	129	0.0125
	128	0.0050
	130	0.0050
	131	0.0502
	132	0.0986
	133	0.1397

		134	0.2284
		135	0.1150
		138	0.0664
		139	0.3762
		144	0.0070
		140	0.0050
		141	0.0080
		142	0.0080
		143	0.1506
		150	0.0127
		151	0.0167
		149	0.0488
		152	0.0350
		154	0.0945
		155	0.0170
		156	0.0080
		157	0.0080
		158	0.0060
		159	0.0060
		160	0.0060
		161	0.2545
		165	0.0550
		162	0.0667
		172	0.0726
		173	0.1908
		166	0.0080
		174	0.2046
		175	0.1402
		176	0.0500
		178	0.0920
		177	0.0080
		179	0.0578
		181	0.0127
		183	0.0307
		180	0.0020
		182	0.0050
		239	0.0963
		241	0.0729
		245	0.0250
		246	0.0066
		247	0.0560
		248	0.0378
		249	0.0057
		250	0.0601
		251	0.0100
	(10) Saidpur Husainpur Dilna	849	0.0513
		838	0.6936
		837	0.1262

	836	0.1257
	835	0.9155
	834	0.0295
	833	0.0318
	832	0.1140
	831	0.2809
	830	0.4939
	752	0.0296
	753	0.0274
	774	0.0962
	773	0.5771
	771	0.7489
	772	0.0050
	769	0.2508
	770	0.1020
	765	0.0050
	681	0.0050
	682	0.7270
	683	1.3306
	689	0.0594
	704	0.0166
	706	0.0010
	705	0.0010
	703	0.2580
	710	0.1020
	711	0.0050
	702	0.0174
	701	0.0173
	690	0.3893
	691	0.4093
	692	0.2287
	693	0.3981
	694	0.1137
	659	0.0496
	387	0.0563
	386	0.7578
	385	0.2120
	382	0.0208
	400	0.0249
	379	0.5203
	401	0.0302
	404	0.7151
	350	0.0174
	345	0.1866
	346	0.1379
	347	0.2772
	344	0.0081
	327	0.0429
	332	0.0429

		325	0.6905
		324	0.0050
		323	0.0050
		322	0.0334
		321	0.2815
		318	0.1085
		414	0.0050
		409	0.0022
		410	0.0016
		320	0.0100
		316	0.3928
		317	0.0911
		315	0.2457
		314	0.2749
		312	0.3186
		311	0.0105
		310	0.2053
		309	0.2685
		308	0.0241
		272	0.1888
		260	0.0897
		261	0.1195
		262	0.0919
		263	0.2863
		270	0.5714
		268	0.0050
		269	0.0984
		271	0.4254
		221	0.3946

[F. No. 2013/LML/12/7/Eastern Corridor/557]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land & Amenities-1)